



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]  
No. 16]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2009/पौष 22, 1930  
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2009/PAUSA 22, 1930

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2009

सा.का.नि. 21(अ).—केन्द्र सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामशः :—

1. (1) इन नियमों को वायुयान (प्रथम संशोधन) नियम, 2009 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 के नियम 3 के खंड (54क) को खंड (54ख) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (54ख) से पहले, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामशः :—

“(54क) ‘टैरिफ’ का अर्थ है विमान परिवहन उपक्रम द्वारा यात्रियों, सामान या माल ले जाने के लिए लिया गया कोई भी भाड़ा, रेट या प्रभार, जिसमें एजेंटों को देय कमीशन और ऐसे भाड़े, रेट या प्रभार को नियंत्रित करने वाली शर्तें भी शामिल होंगी।

व्याख्या.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए ‘माल’ में डाक शामिल नहीं है।”

[फा. सं. ए.वी. 11012/8/2008-ए]

आर.के. सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण 1 :—मूल नियम सरकारी राजपत्र में अधिसूचना संख्या वी-26, तारीख 23 मार्च, 1937 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन दिनांक 22 दिसम्बर, 2008 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड (3), उप-खंड (i) में प्रकाशित, सं. सा.का.नि. 870(अ) तारीख 22 दिसम्बर, 2008 द्वारा किया गया।

टिप्पण 2 :—केन्द्र सरकार ने वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी तारीख 7 जनवरी, 2009 के अपने आदेश सं. ए.वी. 11012/8/2008-ए द्वारा इस अधिसूचना के मामले में पूर्व प्रकाशन की शर्तों से जनहित में छूट दी है।

## MINISTRY OF CIVIL AVIATION

## NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2009

**G.S.R. 21(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely :—

1. (1) These rules may be called the Aircraft (1st Amendment) Rules, 2009.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Aircraft Rules, 1937, in rule 3, clause (54A) shall be renumbered as clause (54B) thereof and before clause (54B) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely :—

“(54A) ‘Tariff’ means any fare, rate or charge collected by an air transport undertaking for the carriage of passengers, baggage or cargo, including the commission payable to the agents, and the conditions governing such fare, rate or charge.

*Explanation.*— For the purposes of this clause, ‘cargo’ does not include mail.”

[F. No. A.V. 11012/8/2008-A]

R.K. SINGH, Jt. Secy.

**Note 1 :—**The principal rules were published in the Official Gazette *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended by No. G.S.R. 870(E) dated 22nd December, 2008 published in Part II, Section (3), Sub-section (i) of the Gazette of India (Extraordinary) on 22nd December, 2008.

**Note 2 :—**The Central Government in exercise of the powers conferred by the proviso to Section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) has in the public interest dispensed with the condition of previous publication in case of this Notification *vide* its Order No. A.V. 11012/8/2008-A dated the 7th January, 2009 issued in the Ministry of Civil Aviation.